



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 2008/माघ 23, 1929

No. 200]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 2008/MAGHA 23, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2008

**का.आ. 302(अ).—**केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 279(अ), तारीख 23 फरवरी, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) और अधिसूचना संख्या का.आ. 1398(अ), तारीख 13 अगस्त, 2007 द्वारा संशोधित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् संशोधित अधिसूचना कहा गया है) द्वारा तमिलनाडु राज्य के नामक्कल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि.मी. से 278.600 कि.मी. (सेलम-करूर सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 30 मार्च, 2007 को दोनों "दि हिन्दू" और "दिनाथांथी" और संशोधित अधिसूचना तारीख 20 सितम्बर, 2007 को दोनों "दि हिन्दू" और "दिनाथांथी" में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 217.600 कि.मी. से 278.600 कि.मी. (सेलम-करूर सेक्शन) तक के भूखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

क्र. सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूस्वामी/अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
				उप मंडल से पहले	उप मंडल के बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	नामक्कल	रासीपुरम	अनाईपलायम	55/1बी1	55/4	निजी	शुष्क	653.0	पी नरसिम्मन पुत्र एस वी पांडुरंगन उमाशंकर आयल मिल श्री रासी रिफाइनरिज

[फा. सं. भाराग्रा/तक/एनएस-2/एलए//सेलम-करूर/टीएन-2]

प्रभाकर, उप सचिव

# MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2008

**S.O. 302(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number **S.O.279 (E), dated the 23<sup>rd</sup> February, 2007**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), and amended by notification number S.O. 1398 (E), dated the 13<sup>th</sup> August, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the amended notification) and issued under sub-section (1) of section 3A of the said Act, the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, on the stretch of land from Km.217.600 to Km.278.600 (Salem – Karur Section) in Namakkal District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu" and "Dhina Thanthi", both dated the 30<sup>th</sup> March, 2007 and of the amended notification in "The Hindu" and "Dhina Thanthi", both dated the 20<sup>th</sup> September, 2007, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 217.600 to Km 278.600 (Salem-Karur Section) of the National Highway No.7 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner / Interested persons
				Before sub division	After sub division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Namakkal	Rasipuram	Anaipalayam	55/1B1	55/4	Private	Dry	653.0	P. Narasimman S/o S.V. Pandurangan Umasankar oil Mill Sri Rasi Refineries

[F. No. NHAI/Tech/NS-2/LA/Salem-Karur/TN-2]

PRABHAKAR, Dy. Secy.